

September 9, 2022

**Corporate Relations
BSE Limited**
PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-4000 01
(Security Code : 534615)

**The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051
(Symbol: NECCLTD)

**Sub: Publication of Notice regarding Book Closure and E-Voting , Completion of dispatch of
Notice of 37th Annual General Meeting & Annual Report.**

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed notice published on September 08, 2022 in Newspapers viz. Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) informing about Completion of dispatch of Notice of 37th Annual General Meeting, Annual Report, Book Closure and E-Voting details read with other applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made there under, and relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs.

This is for your Information and records.

Thanking You,
For North Eastern Carrying Corporation Limited
For North Eastern Carrying Corporation Ltd.


(Mamta Bisht) **Company Secretary**
Company Secretary & Compliance Officer

Encl:a/a

FINANCIAL EXPRESS

Public Notice

Notice is hereby given to the public at large that we are investigating and verifying the title, in respect of the premises more particularly described in the schedule hereunder written which is seized, possessed, owned and/or entitled by MRS. BHARTI GERA W/O Mr. TILAK RAJ GERA. All those persons/entities having any rights, title, interest, share, claim, demand whatsoever in respect of the said premises or any parts thereof by way of sale, mortgage (save and except the Mortgage application in respect of the said premises in favour of Anand Rathi Global Finance Limited "ARGFL"), transfer, exchange, gift, bequest, trust, inheritance, tenancy, sub-tenancy, lease and license, care take basis, possession, family arrangement/settlement, decree or order of any Court of Law, Contracts/Agreements, encumbrance, his pendens, and/or any commitment or otherwise however into, over or upon the said premises is hereby required to give notice thereof in writing together with the supporting documents and particulars of any such right or claim to the undersigned, within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof, failing which the claim, if any, shall be deemed to have been released or waived.

THE SCHEDULE HEREIN ABOVE REFERRED TO
(Description of the Property)
Property bearing No. D-2, area measuring 108.69 Sq. Mtrs., i.e. 130 Sq. Yds., out of Kharsa No. 137/85/7, situated at an area of Village Meerpur Turk, in the abadi of Main Wazirabad Road, Chand Bagh, Hlaqa Shahadara, Delhi.

Dated This 07th day of September, 2022. Place: Delhi Adv. Prashant Rawat (Mob) 9958450315

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
SEBI REG. NO. INR0000002323
Registered Office: India Raipur Compound, Varanasi, Gujarat - 382256 CIN: L18592ZS2009PLC03377
Branch Office: One India Bulls Centre, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400013

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas,
The undersigned being the authorized officer of the Aditya Birla Finance Limited, G Corp, 5th Floor, Kasarwadavi Thane West -400615 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 dated 18th June, 2022 calling upon the Borrowers/co-Borrowers of M/s SCK Infretech Pvt. Ltd., M/s Balaji Trading Co., Mr. Rohit Khandelwal, Mr. Vikal Khandelwal, Mr. Mohit Khandelwal, Mrs. Pratibha Khandelwal, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,92,38,989/- (Rupees Six Crore Ninety Two Lakh Thirty Eight Thousand Nine Hundred Eighty Nine Only) within 60 days from the date of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 5th day of September of the year 2022.

The borrower/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Finance Limited, G Corp, 5th Floor, Kasarwadavi Thane West -400615 for an amount Rs. 6,92,38,989/- (Rupees Six Crore Ninety Two Lakh Thirty Eight Thousand Nine Hundred Eighty Nine Only) and interest thereon.

The borrower's/ Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

Immovable Property
All that part and parcel of the Mortgage Property being:

"Flat No. 102, 1st floor, K L Mehri, Gujar Lane, Andrews Road, CTS No. G- 227 to 230, Village Bandra, Santacruz(W), Mumbai - 400054"

Place : Mumbai
Date : 08/09/2022

Authorised Officer
(Aditya Birla Finance Limited)

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)
Regd. Office: 9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006
Tel. No. 011-23517516-19. Email Id-cs@necgroup.com. Website-www.necgroup.com

Notice is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ("AGM") of NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED (the "Company") will be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 21/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and December 14, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations"), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was sent on Wednesday, September 07, 2022.

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MMS Services Limited. For the members, who have not registered their email addresses, the procedure for registering their email id has been provided in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuring AGM.

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company (remote-e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The details pursuant to the Act are as under:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Friday, September 23, 2022 ("Eligible Members"), can exercise their right to vote by using the remote-e-voting and e-voting facility for all the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company;
- The remote-e-voting will commence on Tuesday, September 27, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote-e-voting will end on Thursday, September 29, 2022 at 5:00 p.m. (IST);
- The remote-e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again;
- The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote-e-voting but shall not vote again in the AGM.
- The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through remote-e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.
- Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., September 23, 2022, shall be entitled to avail the facility of remote-e-voting as well as e-voting in the AGM.
- In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Friday, September 23, 2022, may obtain the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.necgroup.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 2244 30 or send a request to Mr. Arun Yashal at evoting@nsdl.com

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

By order of the Board of Directors
For North Eastern Carrying Corporation Limited
Sd/-
(Sunil Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Date: 07.09.2022
Place: Delhi

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED

Regd office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur.
Phone: 0141-274257, 2742266. Fax: 0141-2742472. CIN: L85110RJ1989PLC005206
E-Mail: sharmaeastindia@gmail.com Website: www.jaipurhospital.co.in

INFORMATION TO THE MEMBERS REGARDING 33rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERRING ("VC") AND OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

1. The 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, 30th day of September, 2022 at 04:00 P.M. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant MCA Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and relevant SEBI Circulars, to transact the business as set out in Notice calling the AGM. Members will be able to attend AGM through VC/OAVM. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2021-22, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice of the AGM will also be available on the Company's website at www.jaipurhospital.co.in, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. No physical copies will be dispatched to the members.

3. Manner of Registering/ updating email addresses:
a. Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Company or Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at sharmaeastindia@gmail.com or RTA at beetalra@gmail.com
b. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

4. Manner of casting votes through e-voting:
Members will have an opportunity to cast their votes on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system ("e-voting").

The manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.jaipurhospital.co.in

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA to its email address beetalra@gmail.com.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the relevant circulars.

For Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd.
Sd/-
Bhawana Sharma (Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Jaipur
Date: 07.09.2022

HARDWYN INDIA LIMITED

CIN: L74990DL2017PLC324826
Registered Office: B-101, PHASE-1, MAYAPURI, NEW DELHI-110064
Web: www.hardwyn.com Telephone: +91-11-28115352

NOTICE OF 05th ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 05th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 04:00 P.M. through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), to transact the business as set forth in the Notice of AGM, in compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made there under and Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 2/2022 dated 05th May, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated 13th April, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 08th December, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2022/62 dated 13th April, 2022 (hereinafter collectively referred to as SEBI Circulars) (collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding of the AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at www.skylineera.com. Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of Companies Act, 2013.

2. In compliance with the relevant circulars, the notice of the 05th AGM and the standalone financial statement for the Financial year 2021-22, along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of that Company/ Depository Participant(s) on 07-09-2022. The requirement for sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available on the website of the company at www.hardwyn.com and can also be accessed from the website of Stock Exchange of India, BSE Limited at www.bseindia.com and Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. www.skylineera.com

3. The Register of members and the Share Transfer Books will close from the 24th September, 2022 to 30th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Voting through Electronic Mode:
In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

VI. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting.
II. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 27th September 2022 at 9:00 A.M.;
III. The remote e-voting shall end on Thursday, 29th September 2022 at 5:00 P.M.;
IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 23rd September 2022.

V. Facility for voting through poll shall also be made available during the AGM.

VI. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, 23rd September 2022 may mail to the company's RTA at info@skylineera.com to register the transfers.

Manner of Registering and updating email addresses:
The member may update or register their email with the company's RTA's Website on www.skylineera.com for the upcoming AGM if the company to be held through video conferencing and/ or other Audio Visual means.

While sending the request, kindly keep the subject as update register the Email ID (mention your DP ID/Client ID/Folio No.) and also send your self-certified copy of Pan Card.

Note- Member may please intimate immediately any change in their email address For Hardwyn India Limited

Sd/-
Rubaljeet Singh Sayal (Managing Director)
DIN: 00280624

punjab national bank
..... Together for the better

CIRCLE OFFICE : PLOT NO. 445, PHASE 3, NEAR DADI POTI PARK, MODEL TOWN, BATHINDA

E-AUCTION SALE OF SECURED PROPERTY/IES ON 27.09.2022 FROM 11:00 AM TO 03:00 PM

E-AUCTION SALE NOTICE

Sr. No.	Name of the Branch/ Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description of Secured assets	Nature of Possession	Demand Notice Date	Reserve Price
				Outstanding Amount (Secured Debt)	EMD Bid Increase Amount

22. Branch Office : BIBI WALA ROAD, BATHINDA
Borrower : Shri. Heera Lal S/o Avtar Singh, MCB-Z-1-04137, Old HNo 7056, Guru Nanak Pura Mohalla, Main Street, Bathinda -151001. Guarantor/ Mortgagee : Sh. Surinder Kumar S/o Madan Lal, Shop No. 3 A, M.C. No. 2/20-N, Sabji Mandi, Mohalla Guru Nanak Pura, Street Shaheed Jarnail Singh Wali, Bathinda, 151001.

23. Branch Office : Abhishek Ind Barnala 4877
Borrower : Gagandeep Kaur W/o Jagjir Singh, Old Cinema Road Ward No. 18, House No. BX/720, Barnala 148101. Guarantor : Mr. Yashpal Garg S/o Surinder Kumar, H. No. XIV/1025 Gali No. 1 Sekha Road, Ward No. 10 Barnala, Punjab 148101.

24. Branch Office : Abhishek Ind Barnala 4877
Borrower : 1. M/s Deepak Agencies through its proprietor Krishan Kumar S/o Raj Kumar, Near Balmiki Chowk, Kamalu Road, Raman Mandi, Tehsil Talwandi Sabo, District Bathinda. 2. Krishan Kumar S/o Raj Kumar, Near Balmiki Chowk, Kamalu Road, Raman Mandi, Tehsil Talwandi Sabo, District Bathinda-151301.

25. Branch Office : Zila Parishad BTI 4026
Borrower : M/s New Rosy Engine House through Prop. Mr. Gurcharan Singh, Opp. Bank of Punjab (Now HDFC), Near Bus Stand, G.T. Road, Bathinda. Proprietor : Mr. Gurcharan Singh S/o Chand Singh. Guarantor : Mr. Jeet Singh S/o Sh. Chand Singh both R/o #33655, Street No. 21, Partap Nagar, Bathinda.

26. Branch Office : Bhikhi
1. M/S Karan Agri Inds. through its prop. Sh. Harpreet Singh S/o Prem Singh, Barnala Road, Bhikhi, District Mansa. 2. Sh. Harpreet Singh S/o Prem Singh, District Mansa. 3. Sh. Prem Singh S/o Sh.

27. Branch Office : Borewal
M/S CHAHAL BKO through its Prop. Sh. Piara Singh S/o Sh. Kaur Singh 2. Sh. Balwinder Singh S/o Sh. Piara Singh. Guarantor - M/S CHAHAL BKO 3. Smt. Sukhwinder Kaur W/o Sh. Kesar Singh Guarantor M/S CHAHAL BKO, All Residents of VPO Guraddi, Distt. Mansa.

28. Branch Office : Boha
1) M/s Sant Kabir Timber & Plywood Store (Surinder Pal), Prop. Sh. Ankush Singh S/o Surinder Pal), Opp. Ziri Ward, Bhikhi Road, Budhlada. Guarantor: Smt. Veena Rani W/o Sh. Surinder Pal, Ward No. 9, Churi Gali, Nr. Naveen School, Budhlada.

29. Branch Office : Bathinda BS 014810
1. M/s Sanjdeep Gas Energy, MCB-Z-4-00274, Deep Complex, Gupta Iron Store Wali Gali, Near Hanuman Chowk, Near Zila Parishad, Bathinda. 2. Shri Arun Mittal S/o Suresh Mittal (Partner M/s Sanjdeep Gas Energy) House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. 3. Smt. Seema W/o Varinder Garg, (Partner M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 100, Green City, Palace Road, Bathinda. 4. Shri Jasant Singh S/o Sh. Sewa Singh (Partner M/s Sanjdeep Gas Energy), Deep Complex, Gupta Iron Store Wali Gali, Near Hanuman Chowk, Near Zila Parishad, Bathinda. 5. Smt. Sunita Rani Guarantor (Since Deceased) W/o Sh. Ram Ji Dass Mittal (Through her Legal Heirs) Named as under: a) Sh. Ram Ji Dass Mittal (Husband) House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. b) Smt. Zeena Bansal (Daughter) W/o Sh. Nishu Bansal, House No. 100, Green Avenue, Palacae Road, Bathinda. c) Smt. Veena Gupta (Daughter) W/o Sh. Subhash Gupta; House No. 34, Tiлак Nagar, Nagpur (Guarantor). d) Sh. Suresh Mittal (Son) S/o Sh. Ramji Dass Mittal, House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. 6. Smt. Shashi Bala W/o Sh. Suresh Mittal (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. 7. Sh. Kuldeep Singh S/o Jasant Singh (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), Deep Complex, Gupta Iron Store Wali Gali, Near Hanuman Chowk, Near Zila Parishad, Bathinda. 8. Sh. Ram Ji Dass Mittal (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. 9. Smt. Zeena Bansal W/o Sh. Nishu Bansal, (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 100, Green Avenue, Palacae Road, Bathinda. 10. Smt. Veena Gupta W/o Sh. Subhash Gupta, (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 34, Tiлак Nagar, Nagpur. 11. Sh. Suresh Mittal S/o Sh. Ram Ji Dass Mittal, (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 77, Green Avenue, Opp. Rose Garden, Bathinda. 12. Sh. Varinder Garg S/o Sh. Satpal Garg (Guarantor M/s Sanjdeep Gas Energy), House No. 100, Green Avenue, Palacae Road, Bathinda.

30. Branch Office : Barnala KC Road (059410)
M/s Lakhwinder watch & General Store through legal heirs of Prop. Late Sh. Ranji Singh S/o Nazar Singh. (1) Smt. Sukhdarshan Kaur (Wife). 2. Sh. Lakhwinder Singh (Son). 3. Sh. Ram Khar Singh (Son).

a) All that part and parcel of Factory land and building measuring 8 kanals 15 Marlas comprised in Kharsa No. 214/23(7-2), 214/22 min (1-13), Khevat khatauni No. 462/1392,634/17 15as per Jamabandi year 2005-06 situated at village Mehma Sarja in the name of firm M/s Sanjdeep Gas Energy purchased vide sale deed No. 6490 dated 10.12.2009. Bounded East: 32 karam or 176' Baba Singh Sarpanch, West 32 Karam or 176'Pram Singh, North: 49.2 karam or 270'-6" road, South 49.2 karam or 270'-6" Surjeet Singh Sarpanch. Note : Factory Land & Building & Plant & Machinery will be sold on Jointly not Separately.

b) All that part and parcel of Residential property msg. 8 Marla bearing Kharsa No. 283/113(2min(0-8)) by size 40'56 situated at Guru Nanak Nagar Backside of Municipal Council Office, Ram Bagh Road, Barnala in the name of Ranjitsingh S/o Nazarsingh acquired vide sale deed no. 884 Dt. 15.05.1987 registered with Sub registrar Barnala and bounded as under East: 56'3" Bant Ram (Now Harbans Lal), West: 56'3" Ved Parkash (Now Meena Kumari), North: 40'4" street 20' wide, South: 40' Avtar Singh (Now Krishan Lal)

31. Branch Office : Barnala AI-487700
Borrower : Sh. Gagandeep Singh Brara S/o Sh. Sukhdev Singh. Guarantor : Smt. Bhupinder Kaur W/o Gagandeep Singh Brar, Both R/o House No. C-785, Gharuan Road, Opp. Brick Klin, Near Punjabi University College, Sandhu Patli Barnala owned by Sh. GAGANDEEP SINGH BRAR s/o Sh. Sukhdev Singh s/o Sh. Gurdial Singh Vide RTD No. 1561 dated 19.05.2004, Khawat No. 15, Khatooni No. 22, Khasara No. 204/19(3-2). Bounded By East-43'0" Street, West-32'6" Vacant Plot, North-83'4" Surinder Kaur, South-55'0" Avtar Singh.

32. Branch Office : eOBC Maur Mandi (063510)
Borrower : 1. Manish Kumar S/o Vijay Kumar. 2. Rajneesh Kumar S/o Vijay Kumar. 3. Asha Rani W/o Vijay Kumar All R/o Talla Road, Near Aggarwal Colony, Maur Mandi, District Bathinda.

33. Branch Office : Boha (eOBC)
M/s Friends Trading Co. through its Prop. Sh. Ravi Kant S/o Sh. Surinder Pal Budhlada Road, Near Police Station, Boha, District Mansa.

34. Branch Office : Link Road Mansa
1. M/S SHRI GANESH BUILDERS, Through Prop. Sh. Nikhil Jindal S/o Sh. Surinder Kumar. 2. Shri Surinder Kumar S/o Sh. Sham Lal Guarantor of M/S SHRI GANESH BUILDERS, Both Residents of Ward No.-21 Near Samrat Cinema Mansa 151005. 3. Shri Harvinder Singh S/o Sh. Hari Singh Guarantor-(M/S SHRI GANESH BUILDERS) Rojgar Daftar Wall Gali Link Road, Mansa 151505.

35. Branch Office : BHIKHI
Borrower : Gill Farms, Comission Agents, Near PSEB Power Grid, Bhikhi, Tehsil & Distt Mansa through its Sole Prop. Sh. Binder Singh S/o Sh. Mithu Singh R/o Near PSEB Power Grid, Bhikhi, Tehsil & District Mansa.

36. Branch Office : Sardulgarh
1. M/s Harman Fresh Fruits (proprietor Sh. Surinder Kumar), Sabji Mandi, Sardulgarh, District Mansa-151507. 2. Sh. Surinder Kumar S/o Sh. Bhikam Singh, Ward No. 4, Near Sweet Blossom School, Sardulgarh, District Mansa.

37. Branch Office : Bathinda BWR 165210
Borrower : 1. M/S Surinder Kumar & Co., 2. Sh. Surinder Kumar S/o Madan Lal (Prop.), Shop No. 3 A, M.C.No.220-N, Sabji Mandi, Mohalla Guru Nanak Pura, Street Shaheed Jarnail Singh Wali, Bathinda 151001. Guarantor : Shri Santokh Singh S/o Lachman Singh, House No. 07471, Street No. 4, Shiv Colony, Bathinda-151001.

38. Branch Office : Barnala AI-487700
Borrower : M/s Barnala Trading Co. Prop. Parvinder Singh S/o Avtar Singh, Opposite City-2 Police Station, Near Malwa Cotton Factory, Barnala. 2. Parvinder Singh S/o Avtar Singh. (prop) M/s Barnala Trading Co., Opposite City-2 Police Station, Near Malwa Cotton Factory, Barnala Pin 148101. Guarantor : Angre Kaur W/o Avtar Singh, H. No. B-XIV/2604, Raikot Road, Opp. Malwa Cotton Factory, Raikot Road, Barnala Pin 148101.

39. Branch Office : Barnala AI-487700
Borrower : M/s Ashu Steel Furniture Add. Raikot Road, Near PNB Abhi. Ind. Branch, Barnala. 2. Smt. Salochana Devi (Prop.) W/o Sh. Vijay Kumar R/o Street No. 5, Sekha Road, Near Soap Factory, Barnala. Guarantor : Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Jagan Nath R/o Street No. 5, Sekha Road, Near Soap Factory, Barnala.

40. Branch Office : KC Road Barnala 0594
Borrower : Satpal S/o Shamsher Singh, House No. B-XIV-1322, Street No. 4, Akal Garh Basti, W. No. 11, Barnala.

All that part and parcel of residential house msg. 888 Sq. Feet situated at B-xiv-1004, Near Hanuman Mandir, Akal Garh Basti, Near Railway Station, Barnala in the name of Sh. Satpal s/o shamsher Singh vide sale deed no.191 dated 28.04.2015 with Sub registrar Barnala and bounded as under East: 37' Surinder Singh, West: 37' street 12' wide, North: 24' Street 12' wide, South: 44' Mohan Lal.

41. Branch Office : Bathinda BS 014810
48 khatauni No. 81, khasra No. : 538/381/ 0-4 marlas in the name of Smt. Angre Kaur W/o Sh Avtar Singh & Parvinder Singh S/o Avtar Singh, sale deed No. 7392 dated 24.02.2006. Bounded by East 10' Feet Street West 10 Feet Manak Pahar North 30 Feet Satpal South 30 feet Harish Chander.

2. Khevat No. 46 khatauni No. 78, khasra No. 538/381 MIN 3-6, 382min/3-1 kila 2, 1/127 share of total 6 kanal 7 marlas Okanal 1 marla in the name of Parvinder Singh S/o Avtar Singh sale deed no 6308 dated 01.02.0007. East: 10ft street West: 10feet street North: 30ft Rala Singh South: 30ft plot.

3. Khevat No. 46 khatauni No. 78, khasra No. 538/381 min 3-6, 1/66 share of (3-6) bakadra -1 marla rakba harigar. In the name of Angre Kaur W/o Avtar Singh sale deed No. 270 dated 20.04.2010 East: 10 feet street West: 10 feet parvinder Singh North 30 Feet street South 30 feet street.

42. Branch Office : Bathinda BS 014810
Land and Building measuring 11Marla being 22/2396 share of 59 Kanal 18 Marlas comprised in khawat no 269/251, khatauni no 423 khasra no 409/6(3-16), 15/2 (0-18), 410/8(3/2-18), 9(8-8), 18/2(6-0),19/3(7-16) situated with in the revenue limit of sanghera owned by Smt. Salochana Devi W/o Vijay Kumar vide RTD No.3368 and 3369 dated 25.07.2011 and their corrigendum deed no 4599 dated 29.09.2011 jamabandi year 2015-16 bounded by East-50'6" Street, West-50'6" Milk centre wall and Gourav Garg, North-60' Gourav Garg, South-60' Gourav Garg

गुमशुदा व्यक्ति की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम: जय प्रकाश उर्फ विनोद, पुत्र: स्व. राम दास, पता: ई-383, जे.जे. कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली, उम्र: 30 साल, रंग: गोरा, चेहरा: लम्बा, शरीर: पतला, पहनावा: महरून व काली टी-शर्ट और पैरों में चमल पहने हुए, जो दिनांक 21.08.2022 को समय शाम 7-30 बजे, थाना-क्षेत्र समयपुर बादली, दिल्ली से लापता हो गया है।

इस संदर्भ में **DD No. 136-A**, दिनांक **23.08.2022**, थाना-समयपुर बादली, दिल्ली में दर्ज है।

पुत्रिता द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अवगत इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

ईमेल : cbic@cbi.gov.in थाना प्रगारी
वेबसाइट : <http://cbi.nic.in> थाना-समयपुर बादली, दिल्ली
फैक्स : 011-24368639 फोन: 011-21710052, 7065036326
दूरभाष : 011-24368638, 24368641 DP/705/ON/2022

एनकोर एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी)

5वीं मंजिल, प्लॉट नं.137, सेक्टर 44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा

ई-नौलामी बिडी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अवल संघितियों की बिडी के लिए ई-नौलामी बिडी सूचना।

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि ऋण खाते में बकाया देश राशि को सुरक्षित रखने के लिए नीचे वर्णित अचल संपत्ति को रिडी इंडियन बैंक लिमिटेड को गिरवी/बाज किया गया है जबसे एनकोर एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ईआरसी-बैंक-005-एटए (‘सिखांडे क्रोडिटर’) के टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में काम कर रही है, जिसका मौलिक करारा सिखांडे क्रोडिटर के अधिपत अधिकारी द्वारा किया गया है।जिसका उधारकर्ता डॉ यशवत सिंह और डॉ सतीश कुमार सिंह (ओपीए धारक डॉ यशवत सिंह के माध्यम से) और श्रीमती विजया सिंह (गारंटर) के से सुरक्षित लेनदार के बकायों 25.08.2022 के अनुसार रु.15,04,80,401/- (पंद्रह करोड़ चार लाख अरसी हजार चार सौ एक रुपय मात्र) और वसूली/वास्तविकता, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद वसूली और अन्य लागतों, प्रभारों आदि तक संविदात्मक दर पर आमो ब्याज की वसूली के लिए 10.10.2022 को ‘जैसा है जहां है’, ‘जो है जैसा है’ और ‘जो कुछ भी है’ के आधार पर बेना जाएगा।

संपत्ति का विवरण, सुरक्षित संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य (आरपी) और ब्याज राशि जमा (ईएनडी) निम्नानुसार है:

अचल प्रतिभूति संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमपी (रु. में)
ए-24, केंद्रीय कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048 स्थित 4000 वर्ग फुट (निर्मित) के लहंगाने वाले भवन के साथ-साथ भूमि का यह सब हिस्सा और अंश। चौहदी उतार की ओर; साइक, दरिया में : प्लॉट नंबर 1 / 849, पूर्व में : प्लॉट नं. ए/24ए, पश्चिम में : कंपनी की भूमि	रु. 2,25,00,000/-	रु. 22,50,000/-

यदि ई-नौलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो तिथि स्वतः ही अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दी जायेगी।

विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी <http://www.encorearc.com/> में दिए गए लिंक को देखें।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए इच्छुक पक्ष सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी से मोहोदल नंबर **9983021940 / 9712688557** पर संपर्क कर सकते हैं। यदि **propertyforsale@encorearc.com** पर ई-मेल करें।

दिनांक: 07.09.2022 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम **एनकोर एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED

(CIN - L65929DL1985PLC022788)

Registered Office: 23, 'F'FLOOR, North West Avenue, Club Road, West Punjab bagh, New Delhi-110025, India.FLOOR: 204B, Platinum Mill, Jawahar Road, Ghatkopar (East), Mumbai-400077. Tel. No - 91-22-61275175. Email:- kapilrajfin@gmail.com, Website:- www.kapilrajfinanceindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 2:30 P.M. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI/HO/CFD/CMD/IR/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities Exchange Board of India ('SEBI Circulars') and SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/SEBI Circulars') dated 13th May 2022 without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM and the integrated Annual Report for the Financial Year 2010-22 including the financial statements for the financial year ended on 31st March, 2022 ('Annual Report') will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) in accordance with the MCA Circular(s) and SEBI Circular. Member can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company and the website of Stock Exchange BSE Limited www.bseindia.com. And MSEI at www.msei.in

The members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with their respective Depository Participant by following the procedure prescribed by the depository participant. Members who have not registered their email address can cast their vote through remote e-voting or through e-voting system during the meeting by following the procedure described in the Notice of AGM.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Kapil Raj Finance Limited

Sd/-
Santosh Director

Place: Delhi
Date: 07.09.2022 (Whole Time Director)

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51908DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110005
Tel. No-011-23517516-19, Email Id-cs@necgroup.com, Website- www.necgroup.com

Notice is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ('AGM') of NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED ('the Company') will be held on Friday, 30th Day of September, 2022 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 21/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and December 14, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations'), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was completed on Wednesday, September 07, 2022.

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MAS Services Limited. For the members, who have not registered their email addresses, the procedure for registering their email id has been provided in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company (remote e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of National Securities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Act are as under:

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Friday, September 23, 2022 (eligible Members), can exercise their right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company;

The remote e-voting will commence on Tuesday, September 27, 2022 at 9:00 A.M. (IST);

The remote e-voting will end on Thursday, September 29, 2022 at 5:00 p.m. (IST);

The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again;

The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not vote again in the AGM;

The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM;

Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., September 23, 2022, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM;

In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e., Friday, September 23, 2022, may obtain the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

The Notice of the AGM is available on the Company's website www.necgroup.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Anil Vishal at anil.vishal@nsdl.co.in

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

By order of the Board of Directors of
For North Eastern Carrying Corporation Limited

Date: 07.09.2022 (Sant Kumar Jain)
Place: Delhi Chairman & Managing Director

क्र	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	आधिपत्य की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMEGRN000034477 एवं LNMEGRN000051972 इमारी गामीनगर शाखा की अविनय नडगना (ऋणकर्ता) अमित नडगना, सुनील सिंह, माल चंद नडगना, वसिष्ठ (सह-ऋणकर्ता)	महान सं. 682 के समस्त यह मांग तथा अंश विनका क्षेत्राधिपता 480 वर्ग मी है (माल चंद बिला, खसरा नं. 647, सेक्टर 37 के रूप में भी विहित जो सेक्टर नं. 731, खाला सं. 754, खसरा सं. 654B-19), 648 (12-10), 649(9-10), 649(10-10), 649(10-11) 649(10-10), 649(10-11), 649(10-12), 649(10-13), 649(10-14), 649(10-15), 649(10-16), 649(10-17), 649(10-18), 649(10-19), 649(10-20), 649(10-21), 649(10-22), 649(10-23), 649(10-24), 649(10-25), 649(10-26), 649(10-27), 649(10-28), 649(10-29), 649(10-30), 649(10-31), 649(10-32), 649(10-33), 649(10-34), 649(10-35), 649(10-36), 649(10-37), 649(10-38), 649(10-39), 649(10-40), 649(10-41), 649(10-42), 649(10-43), 649(10-44), 649(10-45), 649(10-46), 649(10-47), 649(10-48), 649(10-49), 649(10-50), 649(10-51), 649(10-52), 649(10-53), 649(10-54), 649(10-55), 649(10-56), 649(10-57), 649(10-58), 649(10-59), 649(10-60), 649(10-61), 649(10-62), 649(10-63), 649(10-64), 649(10-65), 649(10-66), 649(10-67), 649(10-68), 649(10-69), 649(10-70), 649(10-71), 649(10-72), 649(10-73), 649(10-74), 649(10-75), 649(10-76), 649(10-77), 649(10-78), 649(10-79), 649(10-80), 649(10-81), 649(10-82), 649(10-83), 649(10-84), 649(10-85), 649(10-86), 649(10-87), 649(10-88), 649(10-89), 649(10-90), 649(10-91), 649(10-92), 649(10-93), 649(10-94), 649(10-95), 649(10-96), 649(10-97), 649(10-98), 649(10-99), 649(10-100), 649(10-101), 649(10-102), 649(10-103), 649(10-104), 649(10-105), 649(10-106), 649(10-107), 649(10-108), 649(10-109), 649(10-110), 649(10-111), 649(10-112), 649(10-113), 649(10-114), 649(10-115), 649(10-116), 649(10-117), 649(10-118), 649(10-119), 649(10-120), 649(10-121), 649(10-122), 649(10-123), 649(10-124), 649(10-125), 649(10-126), 649(10-127), 649(10-128), 649(10-129), 649(10-130), 649(10-131), 649(10-132), 649(10-133), 649(10-134), 649(10-135), 649(10-136), 649(10-137), 649(10-138), 649(10-139), 649(10-140), 649(10-141), 649(10-142), 649(10-143), 649(10-144), 649(10-145), 649(10-146), 649(10-147), 649(10-148), 649(10-149), 649(10-150), 649(10-151), 649(10-152), 649(10-153), 649(10-154), 649(10-155), 649(10-156), 649(10-157), 649(10-158), 649(10-159), 649(10-160), 649(10-161), 649(10-162), 649(10-163), 649(10-164), 649(10-165), 649(10-166), 649(10-167), 649(10-168), 649(10-169), 649(10-170), 649(10-171), 649(10-172), 649(10-173), 649(10-174), 649(10-175), 649(10-176), 649(10-177), 649(10-178), 649(10-179), 649(10-180), 649(10-181), 649(10-182), 649(10-183), 649(10-184), 649(10-185), 649(10-186), 649(10-187), 649(10-188), 649(10-189), 649(10-190), 649(10-191), 649(10-192), 649(10-193), 649(10-194), 649(10-195), 649(10-196), 649(10-197), 649(10-198), 649(10-199), 649(10-200), 649(10-201), 649(10-202), 649(10-203), 649(10-204), 649(10-205), 649(10-206), 649(10-207), 649(10-208), 649(10-209), 649(10-210), 649(10-211), 649(10-212), 649(10-213), 649(10-214), 649(10-215), 649(10-216), 649(10-217), 649(10-218), 649(10-219), 649(10-220), 649(10-221), 649(10-222), 649(10-223), 649(10-224), 649(10-225), 649(10-226), 649(10-227), 649(10-228), 649(10-229), 649(10-230), 649(10-231), 649(10-232), 649(10-233), 649(10-234), 649(10-235), 649(10-236), 649(10-237), 649(10-238), 649(10-239), 649(10-240), 649(10-241), 649(10-242), 649(10-243), 649(10-244), 649(10-245), 649(10-246), 649(10-247), 649(10-248), 649(10-249), 649(10-250), 649(10-251), 649(10-252), 649(10-253), 649(10-254), 649(10-255), 649(10-256), 649(10-257), 649(10-258), 649(10-259), 649(10-260), 649(10-261), 649(10-262), 649(10-263), 649(10-264), 649(10-265), 649(10-266), 649(10-267), 649(10-268), 649(10-269), 649(10-270), 649(10-271), 649(10-272), 649(10-273), 649(10-274), 649(10-275), 649(10-276), 649(10-277), 649(10-278), 649(10-279), 649(10-280), 649(10-281), 649(10-282), 649(10-283), 649(10-284), 649(10-285), 649(10-286), 649(10-287), 649(10-288), 649(10-289), 649(10-290), 649(10-291), 649(10-292), 649(10-293), 649(10-294), 649(10-295), 649(10-296), 649(10-297), 649(10-298), 649(10-299), 649(10-300), 649(10-301), 649(10-302), 649(10-303), 649(10-304), 649(10-305), 649(10-306), 649(10-307), 649(10-308), 649(10-309), 649(10-310), 649(10-311), 649(10-312), 649(10-313), 649(10-314), 649(10-315), 649(10-316), 649(10-317), 649(10-318), 649(10-319), 649(10-320), 649(10-321), 649(10-322), 649(10-323), 649(10-324), 649(10-325), 649(10-326), 649(10-327), 649(10-328), 649(10-329), 649(10-330), 649(10-331), 649(10-332), 649(10-333), 649(10-334), 649(10-335), 649(10-336), 649(10-337), 649(10-338), 649(10-339), 649(10-340), 649(10-341), 649(10-342), 649(10-343), 649(10-344), 649(10-345), 649(10-346), 649(10-347), 649(10-348), 649(10-349), 649(10-350), 649(10-351), 649(10-352), 649(10-353), 649(10-354), 649(10-355), 649(10-356), 649(10-357), 649(10-358), 649(10-359), 649(10-360), 649(10-361), 649(10-362), 649(10-363), 649(10-364), 649(10-365), 649(10-366), 649(10-367), 649(10-368), 649(10-369), 649(10-370), 649(10-371), 649(10-372), 649(10-373), 649(10-374), 649(10-375), 649(10-376), 649(10-377), 649(10-378), 649(10-379), 649(10-380), 649(10-381), 649(10-382), 649(10-383), 649(10-384), 649(10-385), 649(10-386), 649(10-387), 649(10-388), 649(10-389), 649(10-390), 649(10-391), 649(10-392), 649(10-393), 649(10-394), 649(10-395), 649(10-396), 649(10-397), 649(10-398), 649(10-399), 649(10-400), 649(10-401), 649(10-402), 649(10-403), 649(10-404), 649(10-405), 649(10-406), 649(10-407), 649(10-408), 649(10-409), 649(10-410), 649(10-411), 649(10-412), 649(10-413), 649(10-414), 649(10-415), 649(10-416), 649(10-417), 649(10-418), 649(10-419), 649(10-420), 649(10-421), 649(10-422), 649(10-423), 649(10-424), 649(10-425), 649(10-426), 649(10-427), 649(10-428), 649(10-429), 649(10-430), 649(10-431), 649(10-432), 649(10-433), 649(10-434), 649(10-435), 649(10-436), 649(10-437), 649(10-438), 649(10-439), 649(10-440), 649(10-441), 649(10-442), 649(10-443), 649(10-444), 649(10-445), 649(10-446), 649(10-447), 649(10-448), 649(10-449), 649(10-450), 649(10-451), 649(10-452), 649(10-453), 649(10-454), 649(10-455), 649(10-456), 649(10-457), 649(10-458), 649(10-459), 649(10-460), 649(10-461), 649(10-462), 649(10-463), 649(10-464), 649(10-465), 649(10-466), 649(10-467), 649(10-468), 649(10-469), 649(10-470), 649(10-471), 649(10-472), 649(10-473), 649(10-474), 649(10-475), 649(10-476), 649(10-477), 649(10-478), 649(10-479), 649(10-480), 649(10-481), 649(10-482), 649(10-483), 649(10-484), 649(10-485), 649(10-486), 649(10-487), 649(10-488), 649(10-489), 649(10-490), 649(10-491), 649(10-492), 649(10-493), 649(10-494), 649(10-495), 649(10-496), 649(10-497), 649(10-498), 649(10-499), 649(10-500), 649(10-501), 649(10-502), 649(10-503), 649(10-504), 649(10-505), 649(10-506), 649(10-507), 649(10-508), 649(10-509), 649(10-510), 649(10-511), 649(10-512), 649(10-513), 649(10-514), 649(10-515), 649(10-516), 649(10-517), 649(10-518), 649(10-519), 649(10-520), 649(10-521), 649(10-522), 649(10-523), 649(10-524), 649(10-525), 649(10-526), 649(10-527), 649(10-52		